

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2023-पौष 1, शक 1945

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)-कुछ नहीं

भाग ४ (ख)-कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर

Jabalpur, the 20th December 2023

No. B-9806.— In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India, section 54 of the States Reorganisation Act, 1956, clauses 27 and 28 of the Letters Patent, the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the High Court of Madhya Pradesh Rules, 2008, which shall come into force from the date of notification in the Madhya Pradesh Official Gazette.

AMENDMENTS

1. In sub- rule (7) of Rule 2 of Chapter x, in clause (b) between the words "size" and "paper" the word "white" shall be inserted.

2. In Rule 3 of Chapter X;

(v) In sub-rule (2), between the words "criminal" and "matter", the symbol and word "/civil" shall be inserted.

(vi) In sub-rule (2), for clause (d), the following sub-rules shall be substituted, namely;

"(3) (a) in all writ petitions filed under Article 226, 227 of the Constitution of India no separate application for interim relief is to be filed. An interim relief shall be claimed in the petition itself. However, a prayer for any interim order which is required in the pending petition would have to be sought for by way of a separate application with affidavit.

(b) in all other cases (except writ petition filed under article 226 and 227 of the Constitution of India), a separate application seeking an interim order has to be filed along with the main case,"

MANOJ KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.